



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 815 राँची, बुधवार,

16 अक्टूबर, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 अगस्त, 2019 ई०।

संख्या-10/विविध-1013/2008 (खण्ड)- 4697 /राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-4669, दिनांक-30.07.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा लिया गया था।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलन के आंदोलनकारियों एवं जय प्रकाश नारायण आंदोलन के आंदोलनकारियों को चिन्हित करने निमित्त पुनर्गठित त्रिसदस्यीय आयोग का **पत्रांक-339 दिनांक-18.04.2018** के माध्यम से प्राप्त **छठी संपुष्ट सूची** प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-3101, दिनांक-01.06.2018** द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित जय प्रकाश आन्दोलनकारियों का **कंडिका सुधार संबंधी** प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-410, दिनांक-13.02.2019** द्वारा प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारी की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस चिन्हित आंदोलनकारी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित जय प्रकाश आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. यह दिनांक-01.06.2016 से प्रभावी होगा।

अनु.-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इग्नातियुस कुल्लू,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गृह विभाग के संकल्प संख्या-10/विविध-1013/2008-2108 (खण्ड-II)-4669, दिनांक- 30.07.2015 में
निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	अधिसूचना सं.-3101 दि.- 01.06.2018 द्वारा निर्गत चिन्हित आन्दोलनकारियों की जिला सूची में क्रमांक/वर्गीकरण	कंडिका सुधार का आधार	संकल्प सं०-4669, दिनांक 30.07.2015 के तहत वर्गीकरण
1	श्री लक्ष्मण स्वर्णकार, पिता- स्व० गन्दौरी स्वर्णकार, पता- ग्राम+पो०- अहिल्यापुर, थाना- गाण्डेय, जिला-गिरिडीह।	कण्डिका-V	जेल की अवधि- 1 वर्ष 4 माह।	कण्डिका-ii
